

## पाठ 5

आओ फिर से दिया जलाएं

मुख से

प्रश्नों के उत्तर बताइए।

क) भरी दोपहरी में अंधरा क्यों है?

उत्तर- भरी दोपहरी में अंधियारा इसलिए है क्योंकि सूरज परछाई से हारा गया है।

ख) कवि भीतरी सरनेम निचोड़कर क्या करने को कहते हैं?

उत्तर- कवि भीतरी स्नेह निचोड़कर प्रेम और अपनत्व की बाती जलाने को कह रहे हैं।

ग) 'बुझी हुई बाती' से कवि का क्या तात्पर्य है?

उत्तर- 'बुझी हुई बाती' से कवि का तात्पर्य प्रेम और भाईचारे का अभाव से है।

घ) दधीचि की हड्डियों से क्या बनाया गया था?

उत्तर- दधीचि की हड्डियों से देवताओं के लिए अस्त्र बनाया गया था।

कलम से-

प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

क) मानव पड़ाव को क्या समझने की भूल करता है?

उत्तर- मानव पड़ाव को अपनी मंज़िल समझने की भूल करता है।

ख) वर्तमान के चक्कर में हम क्या भूल रहे हैं?

उत्तर- वर्तमान के चक्कर में हम आने वाले कल को भूलते जा रहे हैं।

ग) स्वतंत्रता रूपी यज्ञ अधूरा क्यों है?

उत्तर- स्वतंत्रता रूपी यज्ञ अभी तक इसलिए अधूरा है क्योंकि उसमें आहुति अर्थात् त्याग तथा उत्सर्ग की कमी रही है।

घ) नव दधीचि को क्या करना चाहिए?

उत्तर- नव दधीचियों को अपनी हड्डियों को गलाकर वज्र बनाना चाहिए अर्थात् त्याग और बलिदान की मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि विजय हासिल हो सके।

प्रश्न 3 (दिए गए भाव की पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए।

(इस प्रश्न का उत्तर छात्र कविता में से स्वयं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 'क' के लिए कविता का द्वितीय पद लिखें। तथा प्रश्न क्रमांक 'ख' के लिए कविता का तृतीय पद लिखें।)

प्रश्न 4 आशय स्पष्ट कीजिए।

क) 'अपनों के विघ्नों ने घेरा', कवि का संकेत कैसे विघ्नों की ओर है?

अर्थ- कविता की पंक्ति में 'अपनों के विघ्नों ने घेरा' से कवि का तात्पर्य देश के अंदर की प्रतिकूल ताकतों से है, जो हमें पीछे धकेलना चाहती हैं।

ख) 'हम पड़ाव को समझे मंज़िल' में कवि का किस मंज़िल की ओर संकेत है?

अर्थ- 'हम पड़ाव को समझे मंज़िल' में कवि का 'देश को विकसित करने के लक्ष्य' की ओर संकेत है।

बात भाषा की

1) दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए

क) हारा x जीता (ख) अधूरा x पूरा (ग) बुझी x जली (घ) अंतिम x प्रारंभ

(ङ.) जलाएं x बुझाएं (च) जय x पराजय (छ) वर्तमान x भूतकाल (ज) अंधियारा x उजियारा

2.) वर्ण - संयोजन करके शब्द बनाइए।

क्ष = शिक्षा, सक्षम

ज्ञ = ज्ञानी, प्रतिज्ञा

क्ष्य = लक्ष्य, उपलक्ष्य

ड्ड = टिड्डी, उड्डयन